

भारत - सेंट किट्स एवं नेविस संबंध

सेंट किट्स एवं नेविस, जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है, 1623 में ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, 1967 में इसने आंतरिक स्वायत्तता और 1983 में स्वतंत्रता प्राप्त की। आधिकारिक तौर पर सेंट किट्स एवं नेविस के शीर्ष प्रशासक यूके की महारानी हैं जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता है। यहां 14 सदस्यीय एकल सदनीय असेंबली हैं जिसमें से 11 सदस्य सीधे चुने जाते हैं, 2 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा और एक सदस्य प्रतिपक्ष के नेता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

जार्जटाउन में निवास के साथ गुयाना में भारत के उच्चायुक्त को सेंट किट्स एवं नेविस की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारत और सेंट किट्स एवं नेविस के बीच संबंध मधुर एवं मैत्रीपूर्ण हैं। सामान्य तौर पर सेंट किट्स एवं नेविस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। द्विपक्षीय यात्राएं दुर्लभ हैं, हालांकि नेता अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री डा. डेजिल डोगलस ने 5 से 10 अप्रैल 2012 तक भारत की निजी यात्रा की थी जिसके दौरान उन्होंने कारोबारी घरानों से मुलाकात की तथा कारोबारी संबंध विकसित करने की संभावना का पता लगाया। विदेश कार्यालय परामर्श 2007 से सुगठित हैं तथा 2015-16 में सेंट किट्स एवं नेविस के लिए आई टी ई सी के 10 स्लॉट आबंटित किए गए हैं। 1995 में लुइस तूफान के आलोक में देश को तूफान राहत सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा 5,00,000 रुपए की मदद प्रदान की गई। भारत और सेंट किट्स एवं नेविस द्वारा जुलाई 2007 में विदेश कार्यालय परामर्श के तंत्र को बढ़ाने के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया गया।

चूंकि भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, इसलिए इसके नागरिकों को सेंट किट्स एवं नेविस में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है।

भारत के साथ व्यापार नाम मात्र का है क्योंकि इसके आयात अधिकांशतः पर्यटन से संबंधित हैं तथा इसके निर्यात भारतीय बाजार के लिए अनुकूल नहीं हैं। कुछ भारतीय व्यवसायी भारत से भेषज पदार्थ, गारमेंट, आभूषण आदि का आयात करते हैं।

2010-11 से 2014-15 (अप्रैल - दिसंबर) तक भारत और सेंट किट्स एवं नेविस के बीच द्विपक्षीय व्यापार (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल - सितंबर)
भारत का निर्यात	0.66	0.63	1.22	1.25	1.12
भारत का आयात	0.09	0.00	0.02	0.37	0.07

कुल व्यापार	0.75	0.63	1.23	1.52	1.19
-------------	------	------	------	------	------

21 जून 2015 को सेंट किट्स एवं नेविस में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग से संबंधित कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने भरपूर जोश एवं उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में सेंट किट्स एवं नेविस के राजदूत रोन कोडोर मुख्य अतिथि थे।

भारतीय समुदाय की संख्या 200 से 250 के आसपास है जो छोटे व्यवसाय करते हैं। इस देश में भारतीयों की आबादी धीरे-धीरे बढ़ रही है क्योंकि कुछ कारोबारियों ने हाल ही में अपने प्रचालनों को सेंट मार्टिन से सेंट किट्स में शिफ्ट किया है। भारतीय मूल के कुछ छात्र विंडसर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, सेंट किट्स में पढ़ाई भी कर रहे हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, जार्जटाउन की वेबसाइट :
<http://www.hcigeorgetown.org/>

जनवरी, 2016